


UNIT – XI

(Alcohol, Phenol & Ether)

- 1 Wood spirit is called
"कास्ट स्पिरिट" कहलाती है – 1
 (a) CH_3OH (b) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (c) CHCl_3 (d) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
- 2 Power alcohol is a mixture of
 (a) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (b) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{Petrol} + \text{Benzene}$
 (c) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{Ether}$ (d) None
 पावर ऐल्कोहॉल एक मिश्रण है – 1
 a) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ का b) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} +$ पेट्रोल + बैंजीन
 C) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} +$ ईथर d) इनमें कोई नहीं
- 3 Percentage of $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ is rectified alcohol is
परिशुद्ध ऐल्फोहॉल में $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ की प्रतिशित मात्रा होती है – 1
 (a) 95.5 % (b) 96 % (c) 98 % (d) 99.9 %
- 4 Which of the following is a tertiary alcohol
 (a) $-\text{CH}_5\text{OH}$ (b) $-\overset{\underset{|}{\text{C}}}{\text{C}}$ -OH (c) $\overset{\text{C}}{\diagdown}\text{HOH}$ (d) None 1
 इनमें कौन तृतीय ऐल्कोहॉल है –
 a) $-\text{CH}_3\text{OH}$ b) $-\overset{\underset{|}{\text{C}}}{\text{C}}$ -OH C) $>\text{CHOH}$ d) इनमें कोई नहीं
- 5 What is the nature of phenol ?
 (a) Basic (b) Neutral (c) Acidic (d) None 1
 फिनॉल की प्रकृति होती है –
 a) क्षारकीय b) उदासीन C) अम्लीय d) इनमें कोई नहीं
- 6 Final product on nitration of phenol is
 (a) Nitrobenzene (b) Benzene (c) Pieric acid (d) None 1
 फिनॉल के नाइट्रोजन से अन्तिम उत्पाद बनता है –
 a) नाइट्रोबेन्जीन b) बेन्जीन C) पिक्रिक ऐसीड d) कोई नहीं
- 7 Which of the following is a mixed ether
 (a) $\text{R}-\text{O}-\text{R}$ (b) $\text{R}-\text{O}-\text{R}'$ (c) $\text{R}'-\text{O}-\text{R}$ (d) None 1
 इनमें कौन मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है ?
 a) $\text{R}-\text{O}-\text{R}$ b) $\text{R}-\text{O}-\text{R}'$ C) $\text{R}'-\text{O}-\text{R}$ d) इनमें सभी
- 8 The value of $\text{C}-\text{O}-\text{H}$ angle in phenol is
फिनॉल में $\text{C}-\text{O}-\text{H}$ कोण का मान होता है – 1
 (a) 100° (b) 109° (c) 121° (d) 130°
- 9 The following compound is used as
 (a) Antibiotic (b) Painkiller
 निम्न यौगिक का उपयोग होता है – 1
 (c) Tranquilizer (d)

 a) Antibiotic में b) दर्द निवारक के रूप में
 C) निद्राकारी के रूप में d) प्रतिरोधी के रूप में

Very Short Question

- 1 Give an example of allylic alcohol.
ऐलिलिक ऐल्कोहॉल के एक उदाहरण लिखे। 1
- 2 Write down the structure of Benzylic alcohol .
बेन्जिलिक ऐल्कोहॉल की संरचना लिखे। 1

- 3 Write down the general formula of alcohol. 1
ऐल्कोहॉल का सामान्य सूत्र लिखे।
- 4 Name two alcohols of industrial importance. 1
दो औद्योगिक महत्व के ऐल्कोहॉलों के नाम लिखे।
- 5 Complete the following reaction 1
निम्न अभिक्रिया को पूरा करें –
- $$\text{Phenol} + 3\text{H}_2 \xrightarrow[\text{325}^\circ]{\text{Ni}} \text{Product}$$
- 6 Why higher ethers are in solute in water ? 1
उच्च ईथर पानी में अधुलनशील क्यों होते हैं ?
- 7 What is Power alcohol ? 1
‘पावर ऐल्कोहॉल’ क्या है ?
- 8 How alcohol is denatured ? 1
ऐल्कोहॉल का विकृतिकरण कैसे किया जाता है ?
- 9 Complete the following reaction 1
अभिक्रिया को पूरा करें –
 $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH} + \text{SOCl}_2 \rightarrow$
- 10 How many alcoholic groups are present in glycerol ? 1
ग्लिसरॉल में कितने हाइड्रोक्सी समुह होते हैं ?


Short Type Questions

- 1 Write down the IUPAC name of the given compound. 2
- (a)
- (b)
- दिए गए यौगिक का I.U.P.A.C. नाम लिखें ?
- a)
- b)
- 2 What is Williamson's synthesis ? 2
विलियमस संश्लेषण क्या है ?
- 3 Write down the chemical formula of A and B. 2
A और B का रासयनिक सूत्र लिखिए
A और B का रासयनिक सूत्र लिखिए
- (a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{Br} \xrightarrow{\text{KOH (aqueous)}} \text{A}$
- (b) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{Br} \xrightarrow[\text{Heat}]{\text{KOH (alcoholic)}} \text{B}$
- 4 Write down the resonating structures of phenoxide ion. 2
फेनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना लिखें।
- 5 Write down the structure of m-eresol and p-eresol. 2
m-cresol और p-cresol की संरचना लिखें।
- 6 Phenol is more acidic than ethanol. Explain. 2
ऐथेनॉल के अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होता है क्यों?
- 7 How will you convert phenol into nitrobenzene. 2
फिनॉल को आप नाइट्रोबेन्जीन में कैसे बदलेंगे ?

- 8 What happens when phenol is heated with a mixture of Conc HNO_3 and Conc H_2SO_4 .
क्या होता है जब फेनॉल को सान्द्र HNO_3 और सान्द्र H_2SO_4 के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है? 2
- 9 Why ether is kept in dark bottle filled up to the neck ?
ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्णतः भर कर क्यों रखा जाता है ? 2
- 10 Write down the structures of the following –
a) Anisole b) Di isopropyl ether
निम्न की संरचना लिखिए :–
a) एनिसोल b) डाइआइसो प्रोपिल ether 2
- 11 Write down Grignard reaction and explain.
ग्रीन्यार अभिक्रिया को लिखे और उदाहरण दें। 2
- 12 Explain symmetrical and unsymmetrical ether.
सममित ईथर और असममित ईथर को समझावें। 2
- 13 Write down one example each of monohydric and dihydric alcohol.
मोनो हाइड्रीक और डाइहाइड्रिक ऐक्कोहॉल के एक एक उदाहरण दे। 2
- 14 Write down two methods of preparation of ether.
ईथर बनाने की दो विधि को लिखे। उदाहरण दे। 2
- 15 How alcohol is prepared from can sugar juice ?
गन्ने की रस से ऐल्कोहॉल कैसे बनाया जाता है ? 2

Short Questions

- 1 Write down the structural formula of monocyclic phenol having molecular formula $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ and write the IUPAC names
आर्थिक सूत्र $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ वाले Monocyclic phenol की संरचनाएँ तथा I.U.P.A.C. नाम लिखिए। 3
- 2 Explain 1° , 2° and 3° alcohol with example.
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ऐल्कोहॉल को उदाहरण देकर समझायें। 3
- 3 Compare the structures of alcohol, phenol and ether.
ऐल्कोहॉल, फिनॉल और Ether की संरचना की तुलना करें। 3
- 4 (a) What happens when phenol is heated with Zn-dust ?
(b) How will you convert phenol into salieycal dehyde ?
a) क्या होता है जब Phenol को Zn-dust के साथ गर्म किया जाता है।
b) आप फिनॉल को सैलिसैलिडहाइड में कैसे बदलेंगे। 3
- 5 Complete the following reaction
निम्न अभिक्रिया को पुरा करें। 3



- 6 Write down the Friedel-crafts reaction with anisole and give chemical equation.
एनिसोल के साथ होनेवाली फ्रीडेल-क्रफ्ट अभिक्रिया को लिखे और रासायनिक समीकरण दें। 3
- 7 What do you understand by dehydration ? write down dehydration of ethyl alcohol with example.
निर्जलीकरण से क्या समझते हैं ? एथिल ऐल्कोहॉल के निर्जलीकरण को उदाहरण देकर लिखें। 3
- 8 How methanol is manufactured now a days ? Write down its two uses.
वर्तमान में मेथेनॉल का उत्पादन कैने किया जाता है। इसके दो उपयोग लिखें। 3
- 9 (a) Methanol is poisonous in nature, How ? 3

	(b) How will you detect phenol ? a) मेथेनॉल विषैली प्रकृति की होती है। कैसे ? b) फिनॉल की जाँच कैसे करेंगे ?	
10	(a) Juice should be used immediately after extraction. Why ? (b) Continuous use of alcohol is injurious. How ? a) जूस निकालने के बाद तुरन्त उसका सेवन करना चाहिए। क्यों ? b) ऐल्कोहॉल का लगातार सेवन करना घातक है कैसे ?	3
11	(a) Diethylether should not be used as anaesthetic agent. Why ? (b) write down one laboratory method of preparation of ether. a) डाईएथिल ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं होना चाहिए क्यों ? b) ईथर बनाने का एक प्रयोगशाला विधि का उल्लेख करें।	3
12	How will you separate O-Nitrophenol and p-Nitrophenol. O- नाइट्रोफिनॉल और P- नाइट्रोफिनॉल को आप कैसे अलग करेंगे ?	3
13	What do you understand by resonance ? Write down the resonating structures of phenol. अनुनाद से क्या समझते हैं ? फिनॉल की अनुनादी संरचना लिखे।	3
14	(a) What happens when benzene diazonium chloride is treated with water or dilute acid ? (b) Most of the phenol is manufactured from which compound ? (c) Why aspirin is used in heart disease ? a) क्या होता है जब बेन्जीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल या तनु अम्ल के साथ क्रिया किराया जाता है ? b) अधिकतर फिनॉल का उत्पादन किससे किया जाता है ? c) एस्पिटिन का उपयोग दिल की बिमारी में क्यों होता है ?	3
15	Write down three differences between alcohol and phenol. अल्कोहल और फिनॉल में तीन अंतर लिखे।	3

Long Questions

1	Describe the following :- 1) Kolbe Reaction 2) Reimer – Tieman Reaction निम्नलिखित का वर्णन करें। 1) कोल्बे अभिक्रिया 2) रीमर – टीमैस अभिक्रिया	5
2	How will you prepare phenol from a) Cholorobenzene b) Benzene sulphuric acid c) Benzene diazonium salt d) Cumine निम्न से फिनॉल का विरचन कैसे करेंगे। a) क्लोरो बन्जीन से b) बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से c) बेंजीन डाइजोनियम लवण से d) क्योमिन से	5
3	How the following conversion are done a) Phenol to picric acid b) Phenol to benzene c) Propene to propan – 2 – Di d) Benzyl chloride to Benzyl alcohol e) Chlorobenzene to phenol निम्न परिवर्तन आप कैसे करेंगे। a) फिनॉल को पिक्रिक अम्ल में b) फिनॉल को बेन्जीन में	5

- c) प्रोपीन से प्रोपेन – 2 – ऑल
- d) बैंजाइल क्लोराइड को बैंजाइल ऐल्कोहॉल में,
- e) क्लोरो बेन्जीन को फिनॉल में।
- 4 Describe the following reactions taking place with anisole 5
- a) Halogenation
 - b) Friedel – Crafts reaction
 - c) Nitration
- एनेसॉल के साथ होने वाली निम्न अभिक्रिया का वर्णन करें।
- a) हैलोजनन
 - b) फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया
 - c) नाइट्रोकरण
- 5 Write down the structural formula of the following compound 5
- a) 3 – chloromethyl – 2 – isopropyl pentan – 1 – ol
 - b) 2, 5 – Dimethylhexaul – 1, 4 – diol
 - c) 3 – Bromo cyclohexanol
 - d) Hex – 1 – en – 3 – Dl
 - e) 2 – Bromo – 3 – methyl lint – 2 – cn – 1 – ol
- निम्न यौगिक की संरचना सूत्र लिखें।
- a) 3 – क्लोरो मेथिल – 2 – आइसो प्रोपिल पेन्टेन – 1 – ऑल
 - b) 2,5 – डाइमेथिल हेक्सेन – 1, 4 – डाइऑल
 - c) 3 – ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल
 - d) हेक्स – 1 – ईन – 3 – ऑल
 - e) 2 – ब्रोमो – 3 – मेथिल व्यूट – 2 – ईन – 1 – ऑल